

# Eph

## Chapter 3

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 Τούτου χάριν, ἐγὼ Παῦλος, ὁ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, ὑπὲρ ὑμῶν  
इस कअरन मैंन पौलोस, -हो बन्दि -क खरिस्तोस येशु के-लिये तुमहरे  
[G3778](#) [G5484](#) [G1473](#) [G3972](#) [G3588](#) [G1198](#) [G3588](#) [G5547](#) [G2424](#) [G5228](#) [G4771](#)

τῶν ἐθνῶν,  
-के जतियोन  
[G3588](#) [G1484](#)

इसीलिए मैं, पौलुस तुम गैर यहूदियों के लिये मसीह यीशु के हेतु बन्दी बना हूँ।

2 εἶ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, τῆς δοθείσης  
यदि तोह तुम-ने-सुन -को प्रबनध -के अनुग्रह -के परमेशवर -के दिये-हुए  
[G1487](#) [G1065](#) [G0191](#) [G3588](#) [G3622](#) [G3588](#) [G5485](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G1325](#)

μοι εἰς ὑμᾶς;  
मुझे के-लिये तुमहरे  
[G1473](#) [G1519](#) [G4771](#)

तुम्हारे कल्याण के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह के साथ जो काम मुझे सौंपा है, उसके बारे में तुमने अवश्य ही सुना होगा।

3 ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα  
कि के-अनुसर प्रकअशन जतअय-गय मुझे -को रहस्य जैस मैंने-पहले-लिख  
[G3754](#) [G2596](#) [G0602](#) [G1107](#) [G1473](#) [G3588](#) [G3466](#) [G2531](#) [G4270](#)

ἐν ὀλίγῳ;  
मेइन थोधे-मेइन  
[G1722](#) [G3641](#)

कि वह रहस्यमयी योजना दिव्यदर्शन द्वारा मुझे जनाई गयी थी, जैसा कि मैं तुम्हें संक्षेप में लिख ही चुका हूँ।

4 πρὸς ὃ δύνασθε, ἀναγινώσκοντες, νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ  
के-प्रति जो तुम-समरथ-हो पधते-हुए समझन -को समझ मेरि मेइन -मेइन  
[G4314](#) [G3739](#) [G1410](#) [G0314](#) [G3539](#) [G3588](#) [G4907](#) [G1473](#) [G1722](#) [G3588](#)

μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ;  
रहस्य -के खरिस्तोस  
[G3466](#) [G3588](#) [G5547](#)

और यदि तुम उसे पढ़ोगे तो मसीह विषयक रहस्यपूर्ण सत्य में मेरी अन्तर्दृष्टि की समझ तुम्हें हो जायेगी।

5 ὁ ἐτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν  
जो दुसरे पेएधियोन नहिन जतअय-गय -को पुत्रोन -के मनुश्यों जैस अब  
[G3739](#) [G2087](#) [G1074](#) [G3756](#) [G1107](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0444](#) [G5613](#) [G3568](#)

ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ, καὶ προφήταις; ἐν Πνεύματι.  
प्रकत-हुअ -को पवित्र प्रेरितोन उसके और भविश्यवक्तओन मेइन अतम  
[G0601](#) [G3588](#) [G0040](#) [G0652](#) [G0846](#) [G2532](#) [G4396](#) [G1722](#) [G4151](#)

यह रहस्य पिछली पीढ़ी के लोगों को वैसे नहीं जनाया गया था जैसे अब उसके अपने पवित्र प्रेरितों और नबियों को आत्मा के द्वारा जनाया जा चुका है।

6 εἶναι τὰ ἔθνη συνκληρονόμα, καὶ σύσσωμα, καὶ συμμετόχα τῆς  
 होन -को जतियोन सह-विरसतदर और सह-शरेएर और सह-भअगि -के  
[G1510](#) [G3588](#) [G1484](#) [G4789](#) [G2532](#) [G4954](#) [G2532](#) [G4830](#) [G3588](#)

ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, διὰ τοῦ εὐαγγελίου;  
 वअद मेइन खरिस्तोस येशु के-दवर -के सुस्मचर  
[G1860](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#) [G1223](#) [G3588](#) [G2098](#)

| यह रहस्य है कि यहूदियों के साथ गैर यहूदी भी सह उत्तराधिकारी हैं, एक ही देह के अंग हैं और मसीह यीशु में जो वचन हमें दिया गया है, उसमें सहभागी हैं।

7 οὗ ἐγενήθηεν διάκονος κατὰ τὴν δωρεάν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τῆς,  
 जिस्क मैन-बन-गय सेवक के-अनुसअर -के दअन -के अनुग्रह -के परमेशवर -के  
[G3739](#) [G1096](#) [G1249](#) [G2596](#) [G3588](#) [G1431](#) [G3588](#) [G5485](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#)

δοθείσης μοι, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.  
 दिये-हुए मुझे के-अनुसअर -के शक्ति -के शक्ति उस्कि  
[G1325](#) [G1473](#) [G2596](#) [G3588](#) [G1753](#) [G3588](#) [G1411](#) [G0846](#)

| सुसमाचार के कारण मैं उस सुसमाचार का प्रचार करने वाला एक सेवक बन गया, जो उसकी शक्ति के अनुसार परमेश्वर के अनुग्रह के वरदान स्वरूप मुझे दिया गया था।

8 ἐμοί, τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων, ἐδόθη ἡ χάρις αὐτῆ, τοῖς ἔθνεσιν  
 मुझे -को सबसे-छोटे सब पवित्रोन दिय-गय -हो अनुग्रह यह -को जतियोन  
[G1473](#) [G3588](#) [G1647](#) [G3956](#) [G0040](#) [G1325](#) [G3588](#) [G5485](#) [G3778](#) [G3588](#) [G1484](#)

εὐαγγελισασθαι, τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ;  
 सुस्मचर-सुनन -को खोज-से-बहर धनवन्त -क खरिस्तोस  
[G2097](#) [G3588](#) [G0421](#) [G4149](#) [G3588](#) [G5547](#)

| यद्यपि सभी संत जनों में मैं छोटे से भी छोटा हूँ किन्तु मसीह के अनन्त धन रूपी सुसमाचार का गैर यहूदियों में प्रचार करने का यह अनुग्रह मुझे दिया गया

9 καὶ φωτίσαι «πάντας», τίς ἢ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου, τοῦ  
 और प्रकशित-करन सब-को क्य -हो प्रबनध -क रहस्य -क  
[G2532](#) [G5461](#) [G3956](#) [G5101](#) [G3588](#) [G3622](#) [G3588](#) [G3466](#) [G3588](#)

ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ, τῷ τὰ πάντα  
 छिप-हुअ से -मेइन-से युगोन मेइन -मेइन परमेशवर -ने -को सब  
[G0613](#) [G0575](#) [G3588](#) [G0165](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G3588](#) [G3956](#)

κτίσαντι,  
 रचने-वअले  
[G2936](#)

| कि मैं सभी लोगों के लिए उस रहस्यपूर्ण योजना को स्पष्ट करूँ जो सब कुछ के सिरजनहार परमेश्वर में सृष्टि के प्रारम्भ से ही छिपी हुई थी।

10 ἵνα γνωρισθῆ ὑῖν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις,  
 कि जतअय-जये अब -को शअसकोन और -को अधिकअरियोन मेइन -मेइन स्वर्गएय-स्थनोन  
[G2443](#) [G1107](#) [G3568](#) [G3588](#) [G0746](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1849](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2032](#)

διὰ τῆς ἐκκλησίας, ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ;  
 के-दवर -के कलिसिअ -हो बहुत-विधिये बुदधि -क परमेशवर  
[G1223](#) [G3588](#) [G1577](#) [G3588](#) [G4182](#) [G4678](#) [G3588](#) [G2316](#)

| ताकि वह स्वर्गिक क्षेत्र की शक्तियों और प्रशासकों को अब उस परमेश्वर के बहुविध ज्ञान को कलीसिया के द्वारा प्रकट कर सके।

11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων, ἦν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ  
 के-अनुसअर उद्देश्य -के युगोन जिसे उस्ने-बनय मेइन -मेइन खरिस्तोस येशु -के  
[G2596](#) [G4286](#) [G3588](#) [G0165](#) [G3739](#) [G4160](#) [G1722](#) [G3588](#) [G5547](#) [G2424](#) [G3588](#)

Κυρίῳ ἡμῶν,  
 प्रभु हमरे  
[G2962](#) [G1473](#)

यह उस सनातन प्रयोजन के अनुसार सम्पन्न हुआ जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में पूरा किया था।

- 12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν παταοιθήσει, διὰ  
मेइन जिस-मेइन हम-रखते-हैन -को सहस और पहुच मेइन भरोस के-दवर  
[G1722](#) [G3739](#) [G2192](#) [G3588](#) [G3954](#) [G2532](#) [G4318](#) [G1722](#) [G4006](#) [G1223](#)
- τῆς πίστεως αὐτοῦ.  
-के विशवस उसके  
[G3588](#) [G4102](#) [G0846](#)

मसीह में विश्वास के कारण हम परमेश्वर तक भरोसे और निर्भीकता के साथ पहुँच रखते हैं।

- 13 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἵτις  
इस्लिये मैं-विनति-करत-होओन न हअरोन मेइन -मेइन क्लेशोन मेरे के-लिये तुमहरे जो  
[G1352](#) [G0154](#) [G3361](#) [G1573](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2347](#) [G1473](#) [G5228](#) [G4771](#) [G3748](#)
- ἐστὶν δόξα ὑμῶν.  
है महिम तुमहरि  
[G1510](#) [G1391](#) [G4771](#)

इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं जो यातनाएँ भोग रहा हूँ, उन से आशा मत छोड़ बैठना क्योंकि इस यातना में ही तो तुम्हारी महिमा है।

- 14 Τοῦτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν Πατέρα, <τοῦ κυρίου  
इस कअरन मैं-झुकत-होओन -को घुतने मेरे के-पस -के पित -के प्रभु  
[G3778](#) [G5484](#) [G2578](#) [G3588](#) [G1119](#) [G1473](#) [G4314](#) [G3588](#) [G3962](#) [G3588](#) [G2962](#)
- ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ>,  
हमरे येशु खरिस्तोस  
[G1473](#) [G2424](#) [G5547](#)

इसलिए मैं परमपिता के आगे झुकता हूँ।

- 15 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται,  
से जिस-से सब परिवअर मेइन स्वरगोन और पर प्रिथवि नअम-पदत-है  
[G1537](#) [G3739](#) [G3956](#) [G3965](#) [G1722](#) [G3772](#) [G2532](#) [G1909](#) [G1093](#) [G3687](#)

उसी से स्वर्ग में या धरती पर के सभी वंश अपने अपने नाम ग्रहण करते हैं।

- 16 ἵνα δῶ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ, δυνάμει,  
कि वोह-दे तुमहेइन के-अनुसअर -के धनवन्त -के महिम उस्कि शक्ति-से  
[G2443](#) [G1325](#) [G4771](#) [G2596](#) [G3588](#) [G4149](#) [G3588](#) [G1391](#) [G0846](#) [G1411](#)
- κραταιωθῆναι διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ, εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον;  
बलवअन-होन के-दवर -के अतम उस्के मेइन -मेइन भेएतर मनुश्य  
[G2901](#) [G1223](#) [G3588](#) [G4151](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2080](#) [G0444](#)

मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी व्यक्तित्व को शक्तिपूर्वक सुदृढ़ करे।

- 17 κατοικῆσαι τὸν Χριστόν, διὰ τῆς πίστεως, ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐν  
रहन -को खरिस्तोस के-दवर -के विशवस मेइन -मेइन दिलोन तुमहरे मेइन  
[G2730](#) [G3588](#) [G5547](#) [G1223](#) [G3588](#) [G4102](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2588](#) [G4771](#) [G1722](#)
- ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι,  
प्रेम जध-किये-हुए और नेएनव-दअले-हुए  
[G0026](#) [G4492](#) [G2532](#) [G2311](#)

और विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदयों में मसीह का निवास हो। तुम्हारी जड़ें और नींव प्रेम पर टिकें।

18 ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἀγίοις, τί τὸ πλάτος,  
कि तुम-समरथ-ही समझन के-सथ सब -के पवित्रोन क्य -ही चौदरे  
[G2443](#) [G1840](#) [G2638](#) [G4862](#) [G3956](#) [G3588](#) [G0040](#) [G5101](#) [G3588](#) [G4114](#)

καὶ μῆκος, καὶ ὕψος, καὶ βάθος,  
और लम्बरे और उउनचरे और गेहरे  
[G2532](#) [G3372](#) [G2532](#) [G5311](#) [G2532](#) [G0899](#)

| जिससे तुम्हें अन्य सभी संत जनों के साथ यह समझने की शक्ति मिल जाये कि मसीह का प्रेम कितना व्यापक, विस्तृत, विशाल और गम्भीर है।

19 γυνῶναί τε τὴν, ὑπερβάλλουσιν τῆς γνώσεως, ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα  
जअन्न भि -को से-बधकर -के ग्यअन प्रेम -क खरिस्तोस कि  
[G1097](#) [G5037](#) [G3588](#) [G5235](#) [G3588](#) [G1108](#) [G0026](#) [G3588](#) [G5547](#) [G2443](#)

πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ.  
तुम-भरे-जओ मेइन सब -के पुरन्त -के परमेशवर  
[G4137](#) [G1519](#) [G3956](#) [G3588](#) [G4138](#) [G3588](#) [G2316](#)

| और तुम मसीह के उस प्रेम को जान लो जो सभी प्रकार के ज्ञानों से परे है ताकि तुम परमेश्वर की सभी परिपूर्णताओं से भर जाओ।

20 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα  
-को पर समरथ से-बधकर सब करने बहुत-अधिक जो हुम-मअनगते-हैन  
[G3588](#) [G1161](#) [G1410](#) [G5228](#) [G3956](#) [G4160](#) [G5228](#) [G3739](#) [G0154](#)

ἢ νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν;  
य हुम-सोचते-हैन के-अनुसअर -के शक्ति -के कअम-करति-हुइ मेइन हुम-मेइन  
[G2228](#) [G3539](#) [G2596](#) [G3588](#) [G1411](#) [G3588](#) [G1754](#) [G1722](#) [G1473](#)

| अब उस परमेश्वर के लिये जो अपनी उस शक्ति से जो हममें काम कर रही है, जितना हम माँग सकते हैं या जहाँ तक हम सोच सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक कर सकता है,

21 αὐτῷ ἢ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, εἰς πάσας  
उस्को -ही महिम मेइन -मेइन कलिसिअ और मेइन खरिस्तोस येशु मेइन सब  
[G0846](#) [G3588](#) [G1391](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1577](#) [G2532](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#) [G1519](#) [G3956](#)

τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων. ἀμήν.  
-को पेएधियोन -के युग -के युगोन अमेन  
[G3588](#) [G1074](#) [G3588](#) [G0165](#) [G3588](#) [G0165](#) [G0281](#)

| उसकी कलीसिया में और मसीह यीशु में अनन्त पीढ़ियों तक सदा सदा के लिये महिमा होती रहे। आमीन।